



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218]

No. 218]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2006/फाल्गुन 19, 1927

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2006/PHALGUNA 19, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2006

का.आ. 305(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 638 (अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 और संख्यांक का.आ. 572 (अ) तारीख 7 जुलाई, 1998 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के 162.5 कि.मी. से 248.00 कि.मी. (कोटपुतली - जयपुर सेक्शन) और 248.00 कि.मी. से 273.5 कि.मी. (जयपुर बाईपास) तक के भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा था;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन और स्थायी पुल-लोक वित्तपोषित परियोजना के उपयोग के लिए फीस) नियम, 1997 के नियम 3, नियम 5 और नियम 11 और राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस की दर) नियम, 1997 के नियम 3 के उपनियम (2) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 432 (अ) तारीख 10 अप्रैल, 2003 का उन बातों के सिवाए अधिक्रमण करते हुए जिन्हें, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य में 162.5 कि.मी. से 220.00 कि.मी. (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कोटपुतली - चांदबाजी सेक्शन) और जयपुर बाईपास फेज - I (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के 246.00 कि.मी.

से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 273.5 कि.मी. तक जिसकी लम्बाई 13.7 कि.मी. है) और जयपुर बाईपास फेज - II (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 220.00 कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के 246.00 कि.मी. तक जिसकी लम्बाई 34.7 कि.मी. है) के चार लेन वाले भूखंड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर फीस भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सीधे विभागीय तौर पर या प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के आधार पर जो नियुक्त किए जा सकेंगे प्राइवेट ठेकेदार के माध्यम से, इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर शाश्वत आधार पर उद्गृहीत और संगृहीत की जाएगी। फीस का संग्रहण इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर या जयपुर बाईपास फेज - I और फेज - II के लिए प्लाजा के पूर्ण होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती है, शाश्वत रूप से किया जाएगा। फीस की दरें राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस की दर) नियम, 1997 के अनुसार पुनरीक्षण के अधधीन है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग - 8 के 162.5 कि.मी. से 220.00 कि.मी. (कोटपुतली-चांदबाजी) और जयपुर बाईपास फेज - I (राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के 246.00 कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग - 8 (13.7 कि.मी.) के 273.5 कि.मी. और जयपुर बाईपास फेज - II (राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के 220.0 कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग - 11 के 246 कि.मी. (34.7 कि.मी.) तक के चार लेन के भूखंड के उपयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरें।

क्रम संख्या	यान का प्रकार	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 162.5 कि.मी. से 220.00 कि.मी. (कोटपुतली से चांदबाजी) भूखण्ड के लिए फीस वसूली		जयपुर बाईपास फेज - I (राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के 246.00 कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के 273.50 कि.मी. और जयपुर बाईपास फेज -II राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के 220.00 कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के 246.00 कि.मी.) हेतु यानों के लिए फीस दर	
		एक ओर के लिए (रुपए में)	एक दिन में बहुचक्करो के लिए (रुपये में)	एक ओर के लिए (रुपए में)	एक दिन में बहुचक्करो के लिए (रुपये में)
1.	कार या जीप या वैन	35	50	30	40
2.	हल्के वाणिज्यिक यान	55	85	50	70
3.	ट्रक/बस	115	170	95	145
4.	भारी संनिर्माण मशीनरी/अर्थमूविंग उपस्कर	245	370	205	310

टिप्पण:-

1. जब उसी यांत्रिक यान को राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त भूखंड को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहली बार ही द्वार पार करते समय ऊपर अनुसूची में दी गई दरों पर अनेक बार चक्करों के लिए फीस का संदाय कर दे या यदि यान को पूरे मास में या उससे परे उक्त भूखंड का उपयोग बार बार करना पड़ता है तो यान का स्वामी पूर्वोक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उसको लागू एकल दरों के तीस गुणा के बराबर प्रभारों का संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए “दिन” की गिनती चौबीस घंटे की निरंतर अवधि के रूप में की जाएगी।

2. फीस को दो स्थानों में संगृहीत किया जाएगा अर्थात् एक राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के 162.5 कि.मी. से 220.00 कि.मी. (कोटपुतली-चांदवाजी) तक के भूखंड के लिए और दूसरा अनुसूची में यथाउल्लिखित जयपुर बाईपास फेज I (राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के 246 कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 (13.7 कि.मी.) के 273.5 कि.मी. तक और जयपुर बाईपास फेज - II (राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के 220.00 कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के 246 कि.मी. तक (34.7 कि.मी.) के भूखंड के लिए

3. निम्नलिखित प्रकार के यानों को अनुसूची में ऊपर विनिर्दिष्ट फीस से छूट प्राप्त होगी

अर्थात्:-

(i) यान -

(अ) जो अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले हैं या सरकारी तौर पर निम्नलिखित के हैं :-

- (क) भारत के राष्ट्रपति;
- (ख) भारत के उपराष्ट्रपति;
- (ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल;
- (घ) भारत के शासकीय दौरे पर उच्चपदस्थ विदेशी व्यक्ति;
- (ङ) “सी डी”/“सी सी” नंबर प्लेटों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;
- (च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद के सभापति या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या संघ या राज्य के मंत्री या लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधानमंडलों में विरोधी दल के नेता, जिनका दर्जा कैबिनेट मंत्री का हो, यदि वे स्वयं यान में हों; या
- (छ) संसद सदस्य, संपूर्ण देश में या राज्य की विधान सभा के सदस्य या राज्य की विधान परिषद के सदस्य, अपने-अपने राज्यों में, यदि वह, यथास्थिति, संसद या राज्य के संबंधित विधान-मंडल, द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करते हैं;

- (आ) शौर्य पुरस्कारों, जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र का विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ।
- (ii) रक्षा यान, पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्यारूढ़ यान ।
4. फीस की दरें, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और उस प्राधिकारी का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी चाहिए, पथकर चौकी से 500 मीटर पीछे, पथकर चौकी से 100 मीटर आगे और पथकर चौकी पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी । संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो, और ये अंग्रेजी, हिंदी और उस क्षेत्र जिसमें उक्त भूखंड अवस्थित है, की प्रादेशिक भाषा में स्पष्ट रूप से लिखे अथवा मुद्रित किए जाएंगे ।
5. वाहन के प्रकार में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-
- i) अनुसूची के क्रम संख्यांक 2 की दशा में “मिनी बसें” और
- ii) अनुसूची के क्रम संख्यांक 3 की दशा में ऐसे बहुधुरी वाले यान जो उक्त अनुसूची के क्रम संख्यांक 4 में सम्मिलित नहीं हैं ।
6. किसी ऐसे यांत्रिक यान से फीस उदगृहीत और संगृहीत नहीं की जाएगी जो उक्त अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं ।

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एन एच-37011/21/2005-पी आई सी]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th March, 2006

S.O. 305(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the erst-while Ministry of Surface Transport (Roads Wing), number S.O. 638(E) dated 4th September, 1997 and number S.O. 572(E) dated 7th July, 1998, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretches from Km 162.5 to Km 248.00 (Kotputli-Jaipur Section) and from Km 248.00 to Km 273.5 (Jaipur Bypass), of National Highway No. 8 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rules 3, 5 and 11 of the National Highways (Fees for the Use of National Highways Section and Permanent Bridge – Public Funded Project) Rules, 1997 and sub-rule (2) of the rule 3 of the National Highways (Rate of Fee), Rules, 1997 and in supersession of the notification of the Government of India in the then Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O. 432 (E), dated the 10th April, 2003, from the date of collection of fee under this notification, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies that there shall be levied, and collected, by the National Highways Authority of India departmentally, directly or through private contractor who may be appointed on the basis of competitive bidding, a fee on mechanical vehicles for the use of four-laned stretches from Km 162.5 To Km 220.00 (Kotputli-Chandwazi of National Highway No. 8) and Jaipur Bypass Phase-I (From Km 246.00 of National Highway No. 11 to Km 273.5 of National Highway No. 8 with a length of 13.7 Km and Jaipur Bypass Phase-II (From Km 220.00 of National Highway No. 8 to Km 246.00 of National Highway No. 11 with a length of 34.7 Km in the State of Rajasthan at the rates specified in the Schedule annexed hereto. The fee shall be collected in perpetuity from the date of the publication of this notification in the Official Gazette or within 30 days from the date of completion of the plaza for Jaipur Bypass Phase I & II, whichever is later. The rates of fee are subject to revision as per the National Highways (Rate of Fee) Rules, 1997;

715 61/06-2

SCHEDULE

RATES OF FEES TO BE RECOVERED FROM THE USERS OF FOUR-LANED STRETCHES FROM KM 162.5 TO 220.00 (KOTPUTLI-CHANDWAZI) OF NH-8 AND JAIPUR BYPASS PHASE I (FROM KM 246.00 OF NH-11 TO KM 273.5 OF NH-8 (13.7 KM) AND JAIPUR BYPASS, PHASE II (FROM KM 220.00 OF NH-8 TO KM 246.00 OF NH-11 (34.7 KM) IN THE STATE OF RAJASTHAN.

Sl No.	Particulars of the Vehicle	Fee rate for vehicles for the stretch from Km 162.5 to Km 220.00 of NH-8 (Kotputli-Chandwazi)		Fee rate for vehicles for Jaipur Bypass Phase-I (from Km 246.00 of NH-11 to Km 273.50 of NH-8 and Jaipur Bypass Phase-II from Km 220.00 of NH-8 to Km 246.00 of NH-11)	
		For one way trip (in Rupees)	For multiple trips in a day (in Rupees)	For one way trip (in Rupees)	For multiple trips in a day (in Rupees)
1.	Car or Jeep or Van	35	50	30	40
2.	Light Commercial Vehicle (LCV)	55	85	50	70
3.	Truck or Bus	115	170	95	145
4.	Heavy Construction Machinery or Earth Moving Equipment	245	370	205	310

Note:-

1. When the same mechanical vehicle has to cross the said stretch of the National Highway more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee for the multiple trips at the rates as given in Schedule above while crossing the gate in the first trip itself or if the same mechanical vehicle has to cross the said stretch frequently for the entire month or even beyond that, the owner of the vehicle may obtain a monthly pass on payment of charges equal to thirty times single rates applicable to it, as specified in the aforesaid Schedule.

For the purpose of this notification "Day" shall be counted as a continuous period of twenty-four hours.

2. The fee shall be collected at two places that is one for the stretch from Km 162.5 to 220.00 (Kotputli-Chandwazi) of NH-8 and another for the stretch from Jaipur Bypass Phase-I (from km 246.00 of NH-11 to km 273.5 of National Highway-8 (13.7 km) and Jaipur Bypass Phase-II (from km 220.00 of NH-8 to km 246.00 of NH-11 (34.7 km) as mentioned in the Schedule.

3. The following types of vehicles shall be exempted from the fee specified above in the Schedule, namely:-

(i) vehicles-

(A) having "VIP" symbols; or Officially belonging to –

- (a) the President of India;
- (b) the Vice-President of India;
- (c) the Governor of a State or the Lt. Governor of a Union Territory;
- (d) a Foreign Dignitary on State visit to India;
- (e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plate;
- (f) the Chairman of Rajya Sabha or the Speaker of Lok Sabha or the Chairman of a State Legislative Council or the Speaker of a State Legislative Assembly or a Minister for the Union or State, or Leaders of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures, having the status of Cabinet Minister, if he is sitting in the vehicle; or
- (g) A Member of Parliament, in the entire country, or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State, if he produces his identity card issued by the Parliament or the concerned Legislature of the State, as the case may be;

(B) belonging to winner of Gallantry award such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such Award;

(ii) Defence vehicles, Police vehicles, Fire-fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, vehicles of the Department of Posts and Telegraphs, Central and State Government vehicles on duty.

4. The rates of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of the authority to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths also. The height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards and they shall be legibly written or printed in English, Hindi and the regional language of the area in which the said stretch is situated.

5. The type of vehicle shall include:-

- (i) in case of S. No. 2 of the Schedule, "Mini Buses"; and
- (ii) in case of S. No. 3 of the Schedule, "Multi Axle vehicle", not covered by S No. 4 of the said Schedule.

6. No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle, which is not covered by the said Schedule.

[F. No. RW/NH-37011/21/2005-PIC]

PRABHAKAR, Dy. Secy.